बैंक ऑफ़ बड़ोदा Bank of Baroda

Strong margins lift Britannia's profit 47%

Revenue from operations increased 13.3 per cent to ₹4,023.2 crore

Mumbai, 5 May

ritannia Industries' net earnings in the January-March quarter of FY23 jumped 47.1 per cent to ₹558.7 crore as its profit before interest, depreciation and tax (PBIDT) went up 42.7 per cent. This came on the back of softening input costs helping operating margin.

The Nusli Wadia group firm's revenue from operations in the quarter increased 13.3 per cent to ₹4,023.2 crore amid significant distribution gains.

The maker of Good Day and Marie Gold biscuits saw its PBIDT at ₹861.3 crore. Analysts, on average, expected the firm to report a net profit of ₹503 crore, according to Refinitiv IBES data.

In a release, Varun Berry, vicechairman and managing director, Britannia Industries, said: "We continued to accelerate our rural journey with focus on enhancing reach, partnering with 28,000 rural distributors and sustaining our diligent market practices. Our brand & distribution strength also reflects in the consistent market share gains over the last 10 years.

He further said the company supported its brands and innovations with the requisite investments in the digital and mass media space. "We further expanded the portfolio of a few of our adjacent categories, including milk shakes (in aseptic PET bottles) and croissants," Berry said.

During the quarter, Britannia



Consolidated	Char	ıge %						
	Q4FY22	Q3FY23	Q4FY23	QoQ	YoY			
Revenue*	3,550.5	4,196.8	4,023.2	-4.1▼	13.3			
Other income	53.8	50.8	56.4	11.1	4.7			
PBIDT	603.6	869.8	861.3	-1.0▼	42.7			
PBT	518.9	773.7	761.1	-1.6▼	46.7			
Net profit	379.9	932.4	558.7	-40.1▼	47.1			
*Dougnus from one	rations		Course	· Company	ompiled by	DC Docearch Duro		

field units, in line with its strategy to make in-house its range of products and further enhance productivity.

The company also scaled-up the capacity of its drinks and other dairy lines to better leverage seasonal opportunities and enhance supplies to the bakery division for captive consumption.

"On the cost & profitability front, input prices softened on the back of a correction in palm oil & packaging materials, while flour continued to trend higher. Our intensified cost-efficiency procommercialised two biscuit green- gramme, coupled with moderation

in commodity inflation led to a healthy operating margin in this quarter," Berry said.

"We are being vigilant of the competitive actions in the marketplace and closely monitoring the commodity situation in the country, especially around wheat and sugar. We shall deploy appropriate pricing actions to remain competitive and drive market share growth," he said.

In FY23, its consolidated sales were up 15 per cent to ₹15,985 crore and net profit was up 46 per cent to

Marico profit up 18.7% to ₹305 cr

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, 5 May

Homegrown FMCG major Marico Ltd on Friday reported an increase of 18.68 per cent in its consolidated net profit to ₹305 crore for the fourth quarter ended March 2023.

profit of ₹257 crore in the January- down 0.80 per cent from the pre-March quarter a year ago, Marico

said in a regulatory filing.

Its revenue from operations rose 3.52 per cent to ₹2,240 crore during the quarter under review from ₹2,161 crore a year ago.

₹1,907 crore in Q4 FY23. Shares of Marico Ltd on Friday The company had posted a net settled at ₹493.25 apiece on BSE,

Marico's total expenses were www.bankofbaroda.in only. Bidder should refer the same before final submission of the RFP. Last date for submission of above RFP is 29.05.2023 at

www.bankofbaroda.in

Bank of Baroda, Corporate office, Mumbai invites response for Request for Proposal (RFP) for "Supply, Installation and Maintenance of 1,00,000 QR Sound Box Devices"

Details of RFP are available under 'Tender Section' on

Addendum/Corrigendum including modification in the RFP

document, if any, shall be notified on the Bank's website

Place: Mumbai Chief Digital Officer, Bank of Baroda Date: 06.05.2023

Bank's website: www.bankofbaroda.in

dividend

Jairam Sridharan, managing director,

Piramal arm losses widen in Q4, declares

Piramal Enterprises (PEL) suffered a loss of ₹196 crore, on consolidated basis, in the fourth quarter ended March 2023 due to mark-to-market (MTM) hit of ₹375 crore on investment in equity of Shriram group entity. PEL, a diversified finance company, had posted a net profit of ₹151 crore in the fourth quarter of last financial year (Q4FY22). For FY23, its net profit posted almost five-fold growth at ₹9,969 crore as against ₹1,999 crore for FY22.

Piramal Capital & Housing Finance (PCHFL), told media that the loss on Shriram Investments has partly gone away after March 31, 2023. The board has recommended a dividend of ₹31 per share, subject to shareholders' approval. The total dividend pay-out would be ₹740 crore, accord-

EV retail sales rise YoY, but MoM numbers down



Chennai, 5 May

Though the retail sales of electric twowheelers, three-wheelers, passenger vehicles and commercial vehicles saw an increase in April compared to the same time last year, all categories saw a degrowth on a month-on-month (MoM) basis following uncertainties in

According to data shared by the down, Mahindra and Mahindra more month.

APPOINTMENTS

Come,

Grow with us

BOB Financial Solutions Limited

• AVP/Manager - Compliance

Last date of application

27th May 2023

THE VICTORIA MILLS LIMITED

Marg, Lower Parel, Mumbai 400013 CIN: L17110MH1913PLC000357.

Tel No.: 24971192/93, Fax No.: 24971194 Email ID: vicmill2013@gmail.com,

Website: www.victoriamills.in

NOTICE Pursuant to Regulation 29 and other applicable

Regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we wish to

nform you that a meeting of the Board of Directors of th

Company is scheduled to be held on Friday, May 21

2023, to consider the approval of the Audited Financia

results for the Financial Year ended March 31, 2023 and

FOR The Victoria Mills Limited Hussain Shabbir Sidhpurwal

Company Secretary

Place : Pune

Dated: May 05, 2023

Invites applications from eligible candidates for the below pos

BOB Financial

Federation of Automobile Dealers than doubled its sales. Associations (FADA), passenger vehicles saw 159 per cent increase vear-on-vear (YoY) from 2.252 units to 5,824 units when compared with April 2022, while on a monthly basis it came down by 32 per cent from Electric, all other manufacturers, 8,566 units in March. On a monthly basis, Tata Motors sales came down by 38 per cent and, despite the slow-

For two-wheelers, on an annual basis, sales increased 25 per cent to 66,466 units. However, the MoM numbers dipped 23 per cent from 85,793 units in March. Except for Ola such as TVS Motor, Bajaj Auto, Okinawa Autotech, and Hero Electric saw a decline in sales during the

SUTLEJ TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED

EXTRACT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH, 2023 Rings

Particulars	3 Months Ended	Preceding 3 Months Ended	Corresponding 3 Months Ended in the Previous Year	Year Ended	Previous Accounting Year Ended
	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
Total Income from Operations	744.06	664.61	890.46	3074.23	3076.46
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	(15.49)	(25.75)	87.74	101.32	243.53
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(31.36)	(22.60)	79.93	64.94	235.72
Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(23.85)	(15.56)	51.64	37.28	150.23
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	(22.77)	(15.46)	50.93	39.74	150.24
Paid-up Equity Share Capital (Face Value of ₹ 1/- per share)	16.38	16.38	16.38	16.38	16.38
Other Equity				1093.02	1083.59
Earnings Per Share before / after extraordinary items (of ₹ 1/- each) (not annualised)					
a) Basic :	(1.46)	(0.95)	3.15	2.28	9.17
b) Diluted :	(1.46)	(0.95)	3.15	2.28	9.17

Particulars	3 Months Ended	Preceding 3 Months Ended	Corresponding 3 Months Ended in the Previous Year	Year Ended	Previous Accounting Year Ended
	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
Total Income from Operations	736.20	655.72	881.88	3039.17	3041.98
Profit /(Loss) before exceptional items and tax	(12.24)	(23.83)	88.26	107.02	248.87
Profit /(Loss) Before Tax	(47.73)	(20.68)	80.45	51.02	241.06
Profit /(Loss) After Tax	(40.65)	(13.67)	52.19	22.84	155.68
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit /(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(39.22)	(13.82)	51.08	23.83	155.07
Notes:					

The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on 4 May 2023 and 5 May 2023.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial results for the three months and year ended 31 March 2023 are available on Stock Exchanges websites www.bseindia.com and www.nseindia.com and on Company's website www.sutleitextiles.com

> For SUTLEJ TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED (Rajib Mukhopadhyay)

Place: Mumbai

BHARAT FORGE



EXTRACT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2023

Standalone

Consolidated Year ended Quarter ended Year ended Quarter ended **Particulars** March 31, 2023 March 31, 2022 March 31, 2022 March 31, 2023 March 31, March 31, 2023 March 31, March 31, 2022 2023 2022 (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) Total income from operations 77,232.08 36,868.51 36,560.49 106,569.78 20,363.61 17,402,39 64,221.14 130,831.16 Net Profit/(loss) for the period (before tax and exceptional items #) 3,561.94 3,523.83 14,229.60 13,641.40 2,173.33 3,497.37 8,727.36 12,881.09 Net Profit/(loss) for the period before tax (after exceptional items #) 3,153.53 3,499.06 13.827.47 13,959,43 1,767.75 3,366.07 8,269.45 13,805,14 Net Profit/(loss) for the period after tax (after exceptional items #) 2.445.21 2.619.60 10.454.74 10.778.03 1.277.42 2.318.58 5.083.87 10.770.61 Total comprehensive income/(loss) for the period 2,808.31 3.612.62 9.161.36 13.241.04 2,428.30 3.240.16 4,386.49 13.122.02 [comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income/(loss) (after tax)] Paid up equity share capital (Face Value ₹ 2/- each) 931.27 931.27 931.27 931.27 931.27 931.27 931.27 931.27 Reserves (excluding Revaluation Reserve) 76,068.72 70,166.48 76,068.72 70,166.48 66,484.71 64,427.37 66,484.71 64,775.47 Securities premium account 6,930.89 6,930.89 6,930.89 6,930.89 6,930.89 6,930.89 6,930.89 6,930.89 71.097.75 65.358.64 67.415.98 65.706.74 Net worth 76.999.99 71.097.75 76.999.99 67.415.98 6.975.86 4.966.62 6.975.86 4.966.62 6.975.86 4.966.62 6.975.86 4.966.62 Paid up debt capital / outstanding debt Outstanding redeemable preference shares 0.55 1.02 0.86 Earning per share (Face Value ₹ 2/- each) (For continuing and discontinuing operations) - Basic and diluted (in ₹) (not annualised) 5.63 22.45 23.15 23.23 5.25 2.91 1.78 11.35 Capital redemption reserve N.A. N.A. 15 Debenture redemption reserve N.A. N.A N.A. N.A. N.A. N.A. 2.42 3.83 2.43 1.86 Debt service coverage ratio 3.31 3.70 1.86 2.93 7.57 9.17 4.63 8.43 5.80 11.93 Interest service coverage ratio 11.67 16.40

- Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules / AS Rules, whichever is applicable.

Above is an extract of the detailed format of standalone and consolidated financial results for the quarter and year ended March 31, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The consolidated financial results include a period of 15 months pertaining to certain foreign components for the year ended March 31, 2022.

The full format of financial results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and also on the Company's website www.bharatforge.com. For the other line items referred in regulation 52(4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange(s) (BSE and NSE) and can be accessed on the URL (www.bseindia.com and

ISO 9001:2000

For BHARAT FORGE LIMITED

(B. N. KALYANI) **CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR** DIN:00089380

CIN: L25209PN1961PLC012046

Regd. Office: Mundhwa, Pune Cantonment, Pune 411 036, Maharashtra, India. Ph. No.: 91-20-6704 2777 / 2476 Fax No.: 91-20-2682 2163 | Email: secretarial@bharatforge.com | Website: www.bharatforge.com



NOTICE is hereby given to the public that SHREE SADGURU public that SHREE SADGURU
CO-OPERATIVE HOUSING
SOCIETY LTD., is negotiating
with my client for development of
the land property more particularly
described in the Schedule
hereunder written free from
all encumbrance claims and
demands

PUBLIC NOTICE

All person or persons having any claim or interest in the said property or any part thereof by mortgage, charge lien, trust possession, easemen attachment or otherwise howso ever are hereby required to make the same known to the under signed within 15 days from the date hereof, failing which the transaction will be concluded without any reference to such claim and the same, if any, shall be considered as waived.

SCHEDULE ABOVE

ALL THAT the piece or parcel of land or ground bearing Survey No. 386 Corresponding CTS No. 1320 -C/2, area admeasuring 3118.70 sq.meter of Village Mulund (East) Taluka Kurla, Mumbai Suburbar District situated at Gavannada Mulund (East), Mumbai- 400 081 within the area of Municipa Corporation for Greater Mumba and in the area of registration and in the area of registration District & Sub-District office of Mumbai City and Suburban

Mumbai Dated : 06.05.2023.

PRAMOD B. BELOSE Advocate, High Court Adv. Pramod Belose, 19 Raiendra chamber Office No.2 Ground Floor, Nanabhai lane Hutatma chowk, opp. Akberally show room near Fountaiin hotel Fort, Mumbai- 400001

बैंक ऑफ़ बड़ीदा www.bankofbaroda.in

Place: Mumba

: May 05, 2023

Date

REQUEST FOR PROPOS Bank of Baroda, Head Office, Vadodara invites response for Request for Proposal (RFP) for "Supply, Installation, Operations and Maintenance of Digital Signage Solution (DSS) on OPEX/Rental model.

Details of RFP are available under 'Tender Section' on Bank's website: www.bankofbaroda.in

Addendum/Corrigendum including modification in the RFP document, if any, shall be notified on the Bank's website www.bankofbaroda.in only. Bidder should refer the same

Last date for submission of above RFP is 22.05.2023 by 3:00 PM.

Place: Vadodara

before final submission of the RFP.

Chief Digital Officer Date: 06.05.2023

अव्यवस्था • ठेकेवार ने अभी तक उपलब्ध नहीं करवाए पूरे संसाधन, इससे शिविरों में हो रही है अव्यवस्थाएं पनवाड में महात्मा गांधी स्कूल में प्रवेश

महंगाई राहत शिविर में इंटरनेट कनेक्शन से प्रक्रियां शुरू, 12 मई को निकलेगी लॉटरी

महंगाई राहत शिवरों में जरूरी सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन ने करीब 1 करोड़ 80 लाख रुप कर ठेक किया, लेकिन शिवर शुरू हुए करीब 11 दिन हो चुके हैं, फिर भी अभी तक ठेकेदार ने शिवरों में जरूरी संसाधन मुहैया नहीं करवाए हैं। महंगाई राहत शिविरों में पांचों नगरीय निकार्यों से संसाधनों की म पाचा नगराय ानकाया स सस्ताधना का कभी की शिकायत मिलने के बाद भास्कर टीम कई शिक्षियों में पहुंची तो सामने आया कि ठेकेटार ने आधे अधूरे संसाधन भिजवाकर इतिश्री कर ली। कलेक्टर की वीसी में भी नगरीय निकारों के अधिकारियों ने कम संसाधन की बात जावकारचा न कन संसावन का बाता उठाई है। इसी को लेकर कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि वे सूची के हिसाब से राहत शिक्सिंगें में देखें कि किन संसाधनों की कमी है, उसके बाद कमी की भरपाई संबंधित ठेकेदार से करवाई जाएगी।



महंगाई राहत शिविरों में लैपटॉप, डाटा एंटी ऑपरेटर, कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन होने थे जो नहीं हुए

प्रिष्यूरा, इस्तरार प्रमाना होना ना मान हुए हुए हिंचिरों में लैपटींय, इस्टा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध करवार जाने थे, लेकिन भवानी क्लब में लग रहे शिविर में लेफटींय महीं था। न ही कर्ष पर ऑपरेटर दिखाई दिए। नगरपिश्वर के खुद के कम्प्यूटर ऑपरेटर ही वहां पर मीजूर थे। इसी तरह तोनखाना स्कूल में संचालित हो रहे महोगाई ग्रहत शिविर में भी ठेकेटर की ओर से न तो लेपटींप और न ही कम्प्यूटर ऑपरेटर दिए हैं। कर्मचारियों कर कहना है कि इंटरनेट भी वह अपने मोबाइल से उपयोग में ले रहे हैं।

कम संसाधन की शिकायत पहुंची है, सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं

करवाने हैं। हमारे पास कम संसाधन की शिकायत पहुंची है। इसके लिए हमने सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि वे श्तक करण क्या स्ताप श्तकक्य का गण्यत क्या कर के व शिवियों में जाएं और सूची के अनुसार जितने भी संसाधन कम हैं, उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करें। इसी रिपोर्ट के आधार पर ठेकेदार से संबंधित संसाधन पूरे करवाए जाएंगे। हाँ, भारती दीक्षित, कलेक्टर, झालावाड

शिविर में लगे कार्मिकों को देने थे टी शर्ट. मल्टी फंक्शनल पिंटर की भी कमी

महंगाई राहत शिविर में लगे कार्मिकों को टी शर्ट देने महणाइ राहात शायल स लग कामका को टी शर देन थे आर हर शिविस में दो महान्य फेक्शमलत फिर लगाए वाने थे, लेकिन किसी भी कार्मिक के पास टीशर्ट गर्ही पहुंचे और मल्टी फेक्शमल फिर्ट भी कम हैं। कई शिवियों में तो फिर्टर अभी तक गर्ही पहुंचे हैं। इसी तरह रह शिविद में 50 इंच की एलईडी लगाई जानी है, लेकिन कई शिवियों में तो अब जाकर शिवियों में एलईडी पहुंच रही है।

प्रधानाध्यापिका रीना गुप्ता ने बताया प्रारम्भ कर दिया गया है।

प्रारम्भ कर रिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निर्देशक गौरव आवाल की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार जिम स्कूलों में ग्री-ग्राइमरी कक्षाएं एवं बाल वार्ट्काएं संचालित की जा रही हैं उनमें कक्षा नर्सरी में समस्त सीटी पर नवीन प्रवेश दिया जाएगा तथा एलकेजी से यूकेजी तक गत वर्ष स्वीकृत सीटों में से रिक्त हुई सीटों पर ही प्रवेश दिया जा सकेगा।

मंडी भाव

क्षानपुर कृषि उपजमंडी के भाव इस प्रकार हैं। सरसों 3212 से 4850,

८००० रुपए प्रति विख्यंल रहा।



इसकं अत्याजा पूज म सज् 2022-23 तक स्थापित विद्यालयों में कहा 1 में समस्त सीटों पर नवीन प्रवेश दिया जाएगा। शेष पूर्व सत्र में स्वीकृत कक्षाओं में गत वर्ष स्वीकृत सीटों में से पिका हुई सीटों स्थान्त साटा में स रिका हुई साटा पर ही प्रवेश दिया जा सकेगा। स्कूलों में प्रवेश के लिए अभिभावक 9 मई तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन लॉटरी 12 मई को निकाली जाएगी। चयनित बच्चों की सूची 13 मई को

आवास प्रमाण-पत्र एवं छात्र-अभिभावक का आधार कार्ड तथा जन्म प्रमाण पत्र पूर्व कक्षा की अंकतात्त्का की फोटो प्रति जरूरी ऐंगी। प्रश्वनाध्यापिका ने कताया कि आरटीई के मानकों के अनुरूप आरदाद क मानका क अनुस्थ्य कक्षा एक से पांचवी तक अ विद्यार्थी प्रति सेक्शन कक्षा 6 से 8 में 35 विद्यार्थी प्रति सेक्शन तथा कक्षा 9 में 35 विद्यार्थी प्रति सेक्शन रांगि। विद्यालय में प्रवेश निर्धारित संख्या के अनुसार ही दिया जा संकेगा। निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में प्रवेश लॉटरी प्रक्रिया

महंगाई से राहत देने के लिए शिविर



इवलायाड महंगई राहत शिक्से के जिला प्रधारी पंचार रोहत प्रभारी पंकाज मेहता एवं कांग्रेस जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुर्जर ने शुक्रकार को भवानी कलब व तोपखाने में आयोजित महंगाई राहत तांप्रखान में आयों जा महंगाई राहत रिश्चेस का निर्मेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारी एवं कर्मचारियों से योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा बंधा किया महत्ता कि कहा कि बढ़ती महंगाई निजात दिखाने के लिए मुख्यमंत्री गहतोत ने प्रदेश पस में महत्ताह राहता दिखाने का आयोजन किया है। इससे लोगों को भूत सुविधाओं का लाभ मुफ्त में

मिल रहा है। लाभार्थी गुलशन आरा को 6 योजनाओं एवं अमिता को 5 को 6 खोलनाओं एवं ऑसना को 5 मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड विसर्तित किए गए। इसर, इसलरापाटन ब्लॉक अच्यक्ष इसिनावज हुस्तेन ने भी तोरकाना एक्ट्रल में संख्यतित शिविद का अवलीकन कर लाभावियों का मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड विसर्तित किया इस दौपान बीटण प्रवक्ता मोहण्मद शरफीक खान, ब्लॉक सर्वेक्क एफटन खान, ओक्टा मोहण, पार्वेद रसजान खाँ, बीटन स्टब्हन, अक्ट्रका अली, बीटन स्टब्हन, अक्ट्रका अली,

आयोजित किए जा रहे हैं : मेहता



सर्वधर्म सम्मेलन में 45, नायक समाज में 14 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे





खानपुर, समीपवर्ती के अन्नपूर्ण माता मंदिर पिपलाज पर गुरुवार को दसवां सर्वधर्म निशुल्क सामृहिक विवाह सम्मेलन मे भोजन करते हुए वर-वधु।

समीपक्ती के अलपूर्ण माता मॉदर पिपलाज पर पुरुवार को दसका सर्कथर्म निशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन में 45 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। मुस्लिम समाज के जोड़ों का निकाह करवाया गया। अत्रपूर्ण माता मंदिर समिति अध्यक्ष गोविंद जागिड् ने बताया कि निशुल्क सर्वधर्म समाज के सम्मेलन में लोगों ने उत्साह में भाग लिया। मामोलन में 10 में अधिक अन्य

समाज सामृहिक विवाह सम्मेलन का अयोजन गाडरवाड़ा डूंडी में किया गया। विवाह सम्मेलन

पे पुरिवर्ति को देखते स्विध्यम प्रमुक्त सामुक्ता त्याचार स्थापना म मानान करता हुए सर-च्यु ।

मैं जाति-धर्म को साथ निभाते हुए वर-चयु मैं 14 जोहे परिवाय सूत्र में बंधे। विवाद
परिवाय सूत्र में बंधकार हमस्कार बने। विवाद सम्मेलन में वाय भवानी हुए सरेखक अर्ज्विसिंह

में 10 वर्षों से मां अत्रपूर्णा माता मंदिर पर गौड़, अध्यक्ष महिंद्रसिंह नायक, ज्याध्यक्ष सुरेंद्र
सम्मेलन का आर्थिकन किया जा रहा है। नायक, क्षेत्राध्यक्ष चेद्रक्रकार, श्यासम्बद्ध सम्मेलन में विकित धर्मिकन सम्बद्धित व संकारों गिर्दा, क्षियक नरेश नायक, हरिसेह,
व मताजी भव्यक्तानों ने क्ष्यंक्रम में भाग लेकर
सहस्रित्र रामस्वकार, सत्य-तारावण, दिनेश,
सहस्रपात्र विचार हिमाराज नायक, हरिसेह,
वस-च्यु को आर्थावीद दिया। वार्षी नायक समाज कियाप्यक्ष चीव्यक्ता नायक, श्रास्तिहर नायक,
सेवा समिति की ओर से शुक्रवार को उर्चा नायक। दीशक नायक, गोलू नायक, भेवरलाल नायक,
समाज सामृत्रिक विवाद सम्मेलन का आर्थाजान लेकिन नायक, श्रामुक्ति विवाद सम्मेलन विवाह सम्मेलन नायक, श्रामुक्ति, राजित नायक

स्कूली बच्चों ने रैली निकाली



ख्वनपुर| क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कंत्रल्टा में राक्रवार को स्कूल के छात्र-छात्राओं ने महंगाई राहत शिविर में आने को लेकर रेली निकाल कर अपील की है। इस दौरान प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार मीणा, रामेश्वर मीणा, विष्णु प्रसाद पंवार, राजेंद्र प्रसाद नागर, नरेश कुमार यादवेंद्र मीजूद रहे।

किसान संघ बैटक आज राहत कैंपों अब तक हुए ४ लाख ५८ हजार ४३८ पंजीकरण

भारकर न्यूज | बकानी

भारताय किसान संघ तहसील बकानी की बैठक 6 मई को बालाजी मंदिर पार्क में दोपहर 12 रखी गई है। जिसमें सभी कार्यकर्ता सादर आमंत्रित हैं। बैठक में बीमा क्लेम और मुआवजा को लेकर चर्चा की जाएगी और जयपुर सचिवालय घेराव को लेकर रूपरेखा बनाई जाएगी। तहसील में निवासरत जिला प्रति व प्रदेश के सभी कार्यकर्ता अपेक्षित है।

वाहन की टक्कर से बाइक सवार १ की मीत, दूसरा घायल

हादसे में एक बाइक सन्तार की इलाज के दौरान झालाबाड़ जिला अस्पताल में मौतू हो गई। वहीं बाइक पर उसके पीछे बैठा एक अन्य व्यक्ति भी घायल हो गया जिस्का जिला अस्पताल में चल रहा है। अस्पताल चौकी

इसलावाड़| समीधवर्ती मध्यप्रदेश के बताया कि मुक्क के परिजनों ने बताया दोनों नीचे कर गंभीर घायर हो गया भानपुरा बेश के मता रोड पर गुरुवार कि 4 मर्स रात को देखरी खुद निकसी अबता वाहर चारक बाहन को मीके देर रात एक बाइक पर सकार दो जनी श्यामताल (48) युत्र नारायण धाकड़ से लेकर भाग गया। इसके बार को अञ्चात बाहन ने टक्कर मार दी। और बसरोड़ा गंगासा निकासी बंदीसवात ने खुद के फीन से रिश्तेदार अज करखड़ा गगासा निवासी कंशीलाल (35) पुत्र मंगीलाल खारोल बाइक से भवानीमंडी से देवाली खुदें आ रहे थे। बाइक बंसीलाल करा खा था। जैसे ही कुंतलखेड़ी के पास 8 लाइन रीड के बिज के नीचे फुटेंच। बुडनपुर की ओर से आ रहे एक अज्ञात बाइन से उक्की बाइक के उत्पन्न गण

रामस्याल निवासी कुंतलखेड़ी को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने पर रामदयाल मौके पर पहुंचा और श्यामलाल और बंशीलाल को निजी वादन से भवानीमंदी अस्पताल लेकर गया, जहां पर दोनों की हालत गंभी। रत्याज परता प्रता शा अभ्यापात पाका अबुज्युत्त का आह स आ यह एक अहात गया, जहां पर दोना को हरता गंभीर पुलेस ने शब कर पोस्टमार्टम कराकर वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर गार होने पर डॉक्टर ने प्राथमिक इत्या के पुरेतनों को सीध दिया है। अस्थातन दी। इससे श्वासतात (47) पुत्र बाद किया अस्पतात रोत कर दिया, चौकी प्रभागी महेंद्र सिंह मीगा ने नाराक्यस्तात शाकड़ और बंशीतात जहां श्यासतात की मीत हो गई।

झालावाड़ की बहु को सम्मानित

सुनेल एंटी टेरिजन क्राइम एंड करणान फ्रंट नॉर्थ साउथ एंड वेस्ट जोन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित सुग्रीम नेशनल एक्सीलेंस अवॉर्ड 2023 के अंतर्गत आयोजित बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट अवार्ड 2023 का खिताब नेता पुनी इंतरानवाइ की बहु पिकंत हाड़ा पत्नी मंत्रत सिंह हाड़ा ने पूर्व मुख्यमंत्री वस्कुरत एजे से रिक्टाच्यर मुलाकत की। बेस्ट मेकअप अलार्ड 2023 के

सनातन रक्षा सेना के प्रदेश

प्रवक्ता बने डॉ. बृजबल्लभ शर्मा

झालावाड राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक अनुरमा सिंह ने सनातन रक्षा सेना के प्रदेश



खिताब जीतने पर राजे ने हरड़ा को सम्मानित किया। इस दौरान सांसद दुव्यंत सिंह भी मौजूद थे। राजे ने हाड़ा की सराहना करते हुए कहा कि उनसे प्रदेश की महिलाएं प्रेरणा लेंगी एवं ब्यूटीशियन थे मेकअप के हुनर के प्रति रूपि चर्चुणी।

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया 👚 लोधा समाज के सम्मेलन ११८ जोड़े परिणय सूत्र में बंधे

लोधा समाज की ओर से सती भाता मंदिर देवसोड़ी में सामृहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। विवाह सम्मेलन में ता क्षेत्र प्रकार स्वाप्त से विशेष ११८ जोई प्रियम सूत्र में बंधे। सम्मेलन में राजस्थान के लगभग दस जिले से जोई एवं समाज बंधु पहुंचे थे। सम्मेलन में लोधा लोधी महत्सभा के प्रतिय लोधी महस्सभा के प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन लोधा, युवा महस्सभा जिलाध्यक्ष शंभू लोधा, प्रांतीय प्रकला



भंबरलाल ठाकुर, आलोक प्रमोटर, सरपंच विजय प्रताप, प्रधान

प्रचार मंत्री अजय लोधा ने हिस्सा लिया। वहीं अजमेर, भीलवाडा, रामचंद्र बागडी, पूर्व चेक्समेन चित्तींड, टोक, कोटा, बूंदी, अनिल मित्तल, प्रानीय उपाध्यक्ष झालकाड, बाग्रं, भारतपुर, करौली, सत्यनग्रायक्ष मुस्ली लोखा, राष्ट्रीय सम्बाधीमधोसु, जस्सु जिल्लों से भी उपाध्यक्ष मुस्ली लोखा, राष्ट्रीय समाजकांयु मीजूद के।

सारावाड़ (कर दिखरीन झालकाड़ कि के दोरे के कर पूर्व सीरम बातुंसरा गांत्रे बुक्कार को अरपुर के लिए खाना हो गई। यह ग्रस्ते में निवाई में एक शादी समागोंह में भाग लेगी, उसके बाद अवद्धान पहुंचेगी। इक्कार को सुब्बर में हो उत्तरीन विकार करकेज़नों में हिस्सा लिगा। सबसे पहले कह छोटी कोडी पर ग्राजर्यकार के सहदार महिजीत सिंह से मुलकात कर पहुंची। उसके बाद कनवाड़ा सहिज कर बोजें में विकार करकेज़नों में भाग लिया। ग्राजे छाड़ दिन से झालावाड़ में है। बीं। उन्होंने चारों किकासनमा क्षेत्रों में

छह दिवसीय दौरे के बाद पूर्व

सीएम राजे झालावाड़ से रवाना

मनोहरखाना थाना क्षेत्र के टोडरा गांव में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। थानाप्रभारी अजीत सिंह चौधरी ने बताया कि टोडरा निवासी मृतक के चाचा कजरंग ने पुलिस को दी जानकारी में बताया कि उनका भतीजा परमानंद पुत्र गोपीलाल लोभा उम्र 45 वर्ष

चालू करते समय करंट लगने से घायल हो गया। इसे गाइ। स भारतर हा गया। इस सिंहर परिजन अस्पताल लेकर टोंडरा आए, जहां पर डॉक्टरों ने भागा कंकअप कर मृत प्रोपित कर है दी दिया। पुलिस ने शाव को उनका मोचेरी में रखवाया व शुक्रवार पुत्र को पीस्टमार्टम कर परिजनों 5 वर्ष को सींगा।

करंट लगने से युवक की मौत

विभिन्न कार्यक्रमी, शादी समारोह, सम्मेलनों में भाग लिया।

फसल खराबा से प्रभावित काश्तकारों को शीघ्र मिलेगी मुआवजा राशि

झालाखड़ जिले में खरीफ संवत 2079 (वर्ष 2022) में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से हुए फसल खराबा से प्रभावित काश्तकारों का आदान अनुदान वितरण के लिए डाटा फिडिंग करवाया गया है। इसके पश्चात नियमानुसार प्रधानमंत्री प्रसार वामा याजना (पीएमएकबीवाई) के तहत बीमित व्यक्तियों की कृषि विभाग से सूची प्राप्त होने पर उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों की मुआवजा राशि का समायोजन संबंधित तहसीलदार द्वारा करवाया जा रहा है। वहीं खरीफ 2079 का ऑनलाईन पोर्टल बंद हो 2019 को जानताइन पाटल बंद हो गया था, जिसे 3 मई से आपदा प्रवंधन सहायता एवं नागरिक सुरखा विभाग जरम्पू की ओर से फिर से सुचारू किया गया है। पीएमएफबीवाई राशि का समायोजन होते ही बजट की

SUTTING SUTLES TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED

EXTRACT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS

Particulars	3 Months Ended Audited 31.03.2023 744.06	Preceding 3 Months Ended Unaudited 31.12.2022 954.51	Corresponding 3 Months Ended in the Previous Year Audited 31.03.2022 890.46	Year Ended Audited 31.03.2023 3074.23	Previous Accounting Year Ended Audited 31.03.2022 3076.46
Total Income from Operations					
			-	-	
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary Items)	(15.49)	(25.75)	87.74	101,32	243.53
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)	(31.36)	(22.60)	79.93	64.94	235.72
Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)	(23.85)	(15.56)	51,84	37.28	150.23
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (latter tax) and other Comprehensive Income (latter tax))	(22.77)	(15.46)	50.93	39,74	150.24
Paid-up Equity Share Capital (Face Value of # 1/- per share)	16.38	16.38	16.38	16.38	16.38
Other Equity				1093.02	1083.59
Earnings Per Share before / after extraordinary items (of it 1/- each) (not annualised) a) Basic : b) Diluted :	(1.45)	(0.95)	3.15 3.15	2.28 2.28	9.17 9.17

Particulars	3 Months Ended	Preceding 3 Months Ended	Corresponding 3 Months Ended in the Previous Year	hs Ended the	Previous Accounting Year Ended Audited 31.03.2022
	Audited 31.03.2023	Unaudited 31.12.2022	Audited 31.03.2022	Audited 31.03.2023	
Total Income from Operations	735.20	655.72	881.88	3039.17	3041.98
Profit /(Loss) before exceptional items and tax	(12.24)	(23.83)	88.26	107.02	248.87
Profit /(Loss) Before Tax	(47.73)	(20.58)	80.45	51.02	241.06
Profit /(Loss) After Tax	(40.65)	(13.67)	52.19	22.84	155.68
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit /(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(39.22)	(13.82)	51.08	23.83	155.07

es and approved by the Board of Directors of the Company at the

respective meetings held on 4 May 2023 and 5 May 2023. The above is an extract of the detailed format of Quarters and First Charles of the Control of Charles and Concelledated First Charles Charles of Charles on the Charles of Charles on the Charles of Charles on the Charles of Charles of Charles of Charles on the Charles of Ch

(Rollb Mukhopad

ही संस्थापक एवं राष्ट्रीय सहमति से जिले व प्रदेश की

प्रवक्ता पद पर डॉ. बृजबल्लभ शर्मा की नियुक्ति की है। शर्मा की नियुक्ति पर अनेक संगठनों

ने क्यार्ट ही है। जार्म जीव

एलजेब्रा पब्लिक स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल का गठन



नर् अकादमिक सत्र में विद्यालय की 12 सदस्यीय स्टूडेंट कॉर्डिसिल का गउन किया गया। समारोह की मुख्य अतिथि संस्थान निदेशिका मीता अताथ संस्थान निदारका माता शर्मा व मीनाशी गौतम रही। विद्यालय करतान के रूप में स्ट्राश सिंह व उप-करतान के रूप में वनी रॉय का चयन किया गया। अग्नि, बाबु एवं आकाश करतान व उप-करतान, में करतान एवं उपकरतान स्मिद्द्स करनान एवं उत्तराज्ञा क्रमशः पूर्व गुर्जर, लीशा तंत्रर, लिवश अग्रवाल, योगेश मीणा, भूमिश रावल, साक्षी रावल, बचलू,

कोटा एलजेबा पब्लिक स्कूल के विकास सेन, वचन शुक्ला, मुस्कान गौड़ को चुना गया। मुख्य अतिथियों ने काउंसिल को क्याई देते हुए सैश न कोजसल का क्याइ दत हुए सहा च कैजेस प्रदान किए। प्रधानाचार्य भगकती प्रसाद गीतम ने स्टूडेंट कॉर्डिसल को अनुशासन के साथ बेहतर काम करने की प्रेरणा दी। उपप्रधानाचार्या सीमा घोष ने हेड गर्ल, हेंड बॉय व इसके बाद छात्र परिषद के सदस्यों को कर्तव्यों को निष्टा के साथ पालन करने की शस्य दिलई। इस अवसर पर अभिभावक भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक राष्ट्रल शर्मा एवं शिक्षक शालिनी जोशी ने किया। अकलेरा निरोगधाम अस्पताल में जापानी तकनीकी से स्पाइन सर्जरी की सुविधा



अवलेश| निरोगधाम हॉस्पिटल में जापानी तकनीकी से स्पाइन सजरी की सुकिश उपलब्ध है। अब यहां मरीजों को छोटे से चीर से जापानी तकनीक द्वारा अब बहा मराजा का छाट स चेरि से जारानी तकनीक द्वारा स्पष्टन सन्त्रेरी की सुविधा मिल सकेगी। अस्पताल में कार्यरत एमएस ऑबॉपिंडिक सन्त्रेन डॉ. उमेश। परेहार के जारानी तकनीक से एडवान्सड एण्ड मिनीमल इनवेसिव स्पाइन सर्जरी

संभाग में पहले डॉक्टर हैं। अस्पताल के निदेशक अस्पताल के निदेशक कंवरलाल मीगा ने बताया कि डॉ. परिहार ने स्पेशियलिटी की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद स्पाइन सर्जरी में सब स्पेशियलिटी की ट्रेनिंग स्तब्ध स्पाइन हॉस्पिटल अहमदाबाद से की। इसके बाद से निरोगधाम हॉस्पिटल में ऑबॉस्पाइन सर्जन के रूप में कार्य कर रहे हैं।

जोरदार स्वागत किया गया। यह ट्रेनिंग करने वाले वे कोटा

फलपल पारा का समापाना हात है। बजट का मांग की जाकर लगभग 2 सप्ताह में प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि के भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।